



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 फाल्गुन 1936 (श०)
(सं० पटना 372) पटना, मंगलवार, 17 मार्च 2015

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना

आदेश

11 मार्च 2015

सं० 07/नि. (विधि-11) विविध- 60/2012-1403—चूँकि अधोहस्ताक्षरी के आदेश ज्ञापांक 2558 दिनांक 14.06.2013 के द्वारा सेन्ट्रल बैंक इम्पलाईज बचत एवं साख स्वावलम्बी सहकारी समिति लि., सुपौल के परिसमापन की कार्यवाही के सुचारु रूप से संचालन हेतु परिसमापक को सहायता प्रदान करने के लिए अधिनियम, 1996 की धारा-45 (क) के तहत श्री जबाहर प्रसाद, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, कोशी प्रमण्डल, सहरसा को संयुक्त परिसमापक तथा श्री बैद्यनाथ राय, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी सहयोग समितियाँ, सहरसा को सहायक परिसमापक नियुक्त किया गया था।

और चूँकि श्री जबाहर प्रसाद, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, कोशी प्रमण्डल, सहरसा एवं श्री बैद्यनाथ राय, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी सहयोग समितियाँ, सहरसा के अन्यत्र स्थान्तरण हो जाने के फलस्वरूप श्री लक्ष्मी प्रसाद चौहान, जिला पदाधिकारी, सुपौल-सह-परिसमापक बैंक इम्पलाईज बचत एवं साख स्वावलम्बी सहकारी समिति लि., सुपौल को परिसमापन की कार्यवाही के सुचारु रूप से संचालन हेतु सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त परिसमापक एवं सहायक परिसमापको की नियुक्ति की आवश्यकता है।

अतः मैं हुकुम सिंह मीना, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना सम्यक विचारोपरान्त बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा-45 (क) के तहत श्री मनोज कुमार, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, कोशी प्रमण्डल, सहरसा तथा श्री किशोर कुमार झा, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, सहरसा को सेन्ट्रल

बैंक इम्पलाईज बचत एवं साख्र स्वावलम्बी सहकारी समिति लि., सुपौल (विधित्त) को क्रमशः संयुक्त परिसमापक एवं सहायक परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

नियुक्त संयुक्त परिसमापक और सहायक परिसमापक, परिसमापन की कार्यवाही में परिसमापक द्वारा आवंटित कार्यों/दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

आदेश से,

हुकुम सिंह मीना,

निबंधक, सहयोग समितियाँ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 372-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>